

कुल प्रश्नों की संख्या : 23

कुल पृष्ठों की संख्या : 4

प्रो वार्षिक परीक्षा 2019-20

कक्षा - 11वीं

विषय - लेखाशास्त्र

समय : 03 घण्टे

पूर्णांक : 80

निर्देश :-

1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।
2. प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है।
3. प्रश्न क्रमांक 6 से 11 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है शब्द सीमा 30 शब्द है।
4. प्रश्न क्रमांक 12 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है शब्द सीमा 75 शब्द है।
5. प्रश्न क्रमांक 17 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है शब्द सीमा 120 शब्द है।
6. प्रश्न क्रमांक 19 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है शब्द सीमा 150 शब्द है।
7. व्यावहारिक प्रश्नों में शब्द सीमा बंधन नहीं है।

प्रश्न क्रमांक 1- सही विकल्प का चयन कीजिए

1. व्यापारी द्वारा अपने निजी खर्च के लिए निकाली गई रकम कहलाती है -

(अ) पूंजी (ब) आहरण (स) व्यय (द) हानि

2. नकद बट्टा देय होता है -

(अ) उधार कय के समय (ब) उधार विकय के समय

(स) नकद भुगतान के समय (द) किसी भी समय

3. लेखांकन अवधि सामान्य तथा किस समयावधि की होती है -

(अ) 6 माह (ब) 3 माह (स) 12 माह (द) 1 माह

4. चालू व्यवसाय की मान्यता से आशय है -

(अ) व्यवसाय का बन्द हो जाना (ब) व्यवसाय का प्रारंभ करना

(स) व्यवसाय का चलते रहना (द) व्यवसाय का विकय करना।

प्रश्न क्रमांक 2- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1. विपत्र ----- द्वारा लिखे जाते हैं।

2. चिट्ठा व्यवसाय की ----- स्थिति को दर्शाता है।

3. सम्पत्ति का लेखा तलपट में ----- पक्ष में किया जाता है।

4. प्रति प्रविष्टि की जाती है ----- बही में।

प्रश्न क्रमांक 3- सत्य/असत्य लिखिए -

1. रोकड़ खाता एक वास्तविक खाता है।

2. कय बही में सभी कयों का लेखा किया जाता है।

3. उदरत खाता स्थायी होता है।

4. विकय बही में माल के सभी उधार विकय का लेखा किया जाता है।

प्रश्न क्रमांक 4- एक शब्द/वाक्य में उत्तर दीजिए

1. DDL का पूरा नाम क्या है ?

2. इकठ्ठा लेखा पद्धति किसके द्वारा मान्य नहीं है ?

3. पूंजी ज्ञात करने के लिए क्या बनाये जाते हैं ?

4. समस्त प्रत्यक्ष व्ययों को किस खाते में लिखा जाता है ?

प्रश्न क्रमांक 5- सही जोड़ियाँ बनाइए -

अ

1 शुद्ध लाभ

2 चिट्ठा

3 व्यापार के प्रत्यक्ष व्यय

4 लेनदार

1 दायित्व

2 व्यापार खाते में डेबिट

3 लाभ-हानि खाता

4 अंतिम पूंजी

प्रश्न क्रमांक 6- लेखांकन के दो लाभ लिखिए ?

अथवा

प्रविष्टि से क्या आशय है ?

प्रश्न क्रमांक 7- लेखांकन की दो सीमाएँ लिखिए ?

अथवा

कटौती/बढ़ा/छूट किसे कहते हैं ?

प्रश्न क्रमांक 8- चालू व्यवसाय की मान्यता से आप क्या समझते हैं ?

अथवा

पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत समझाइये ?

प्रश्न क्रमांक 9- आधारभूत लेखांकन समीकरण क्या है ?

अथवा

लेखांकन अवधि मान्यता से क्या आशय है ?

प्रश्न क्रमांक 10- लेखांकन में कम्प्यूटर की भूमिका को समझाइये ?

अथवा

कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के लाभ लिखिए ?

प्रश्न क्रमांक 11- कम्प्यूटर की दो सीमाएँ लिखिए ?

अथवा

एम एस एक्सेस को समझाइए ?

प्रश्न क्रमांक 12- निम्नलिखित व्यवहारों से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए -

1. मनन ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया - 2,00,000
2. अरनव से उधार फर्नीचर खरीदा - 7,000
3. संजय से रोकड़ देकर माल खरीदा - 40,000

अथवा

खाते का नमूना बनाइये ?

प्रश्न क्रमांक 13- बैंक समाधान विवरण का महत्त्व बताइये ? (कोई तीन)

अथवा

निम्न से बैंक समाधान विवरण बनाइये -

1. रोकड़ बही के अनुसार शेष - 8200
2. निर्गमित चैके जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए - 2000
3. बैंक द्वारा बैंक शुल्क - 150

प्रश्न क्रमांक 14- प्राप्य विपत्र एवं देय विपत्र में अन्तर लिखिए ?

अथवा

01 जनवरी 2015 को अमित ने सुमित को 20,000 का उधार माल बेचा और तीन माह की अवधि का एक विपत्र सुमित पर लिखा। सुमित ने विपत्र स्वीकार किया और अमित को वापिस भेज दिया। परिपक्वता तिथि पर सुमित ने विपत्र का भुगतान कर दिया। लेखक की बही में पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए ?

प्रश्न क्रमांक 15- निम्नांकित सूचना से लाभ-हानि की गणना दर्शाइये -

विवरण	व्यवसायी (A)	व्यवसायी (B)
वर्ष 2004 के प्रारंभ में प्रारंभिक पूंजी -	30,000	25,000
इस वर्ष में पूंजी में वृद्धियाँ -	30,000	25,000
इस वर्ष के आहरण -	10,000	15,000
पूंजी वर्ष के अन्त में -	70,000	30,000

अथवा

दोहरा लेखा प्रणाली तथा इकहरा लेखा प्रणाली में अन्तर बताइये ?

प्रश्न क्रमांक 16- हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में अन्तर लिखिए ?

अथवा

संक्षेप में इनपुट डिवाइस का वर्णन कीजिए ?

प्रश्न क्रमांक 17- निम्नलिखित से रोकड़ खाता बनाइए ?

1. 2010 जनवरी 1 - रोकड़ हाथ में - 26,000
2. 2010 जनवरी 7 - रोकड़ विक्रय - 2000

3. 2010 जनवरी 9 - रोकड़ कय - 6000
4. 2010 जनवरी 15 - आहरण - 200
5. 2010 जनवरी 21 - कार्यालय व्यय चुकाया - 600
6. 2010 जनवरी 31 - वेतन चुकाया - 4000

अथवा

प्रारंभिक प्रविष्टि व अंतिम प्रविष्टि में अन्तर लिखिए ?
प्रश्न क्रमांक 18- चिट्ठे का महत्व या उपयोगिता बताइये ? (कोई चार)

अथवा

मार्च 2019 को निम्नांकित से अंतिम खाते बनाइये -

विवरण	राशि	विवरण	राशि
प्रारंभिक रहतिया	4000	लेनदार	2100
कय	56,000	देय विपत्र	2000
आहरण	1000	कमीशन	300
भाडा	500	विकय	60,000
देनदार	5500	बट्टा	200
वेतन	1500	पूजी	16,500
मजदूरी	600		
प्राप्य विपत्र	1800		
मरम्मत	200		
मशीन	10,000		
कुल	81,100		81,100

प्रश्न क्रमांक 19- निम्नलिखित लेन-देनों को त्रि-स्तम्भीय रोकड़ बही में लिखिए -

- 01 अप्रैल 2010 - रोकड़ शेष 9500 बैंक (जमा) 4000 रुपये
- 10 अप्रैल 2010 - अजय से 3000 का चैक मिला जिसे हेमंत को बेचान किया
- 15 अप्रैल 2010 - संजय से 1800 रुपये का चैक मिला व उसे बैंक भेजा, कटौती दी 50 रुपये
- 20 अप्रैल 2010 - संजय से प्राप्त चैक अनादरित होकर लौट आया
- 30 अप्रैल 2010 - माल खरीदा व चैक से भुगतान किया 4100 रुपये

अथवा

सहायक बहियों के लाभ लिखिए ?

प्रश्न क्रमांक 20- निम्नलिखित व्यवहारों से सोनाली ट्रेडर्स की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए -

- 01 मई 2017 - 10,000 रुपये रोकड़ एवं 20,000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किया।
- 05 मई 2017 - रोहन से 5000 रुपये का माल 10 प्रतिशत व्यापारिक बट्टे और 2 प्रतिशत नगद बट्टे पर खरीदा।
- 20 मई 2017 - कोमल से 1000 रुपये माल का आदेश प्राप्त हुआ।
- 25 मई 2017 - प्रेम से 2000 रुपये का माल खरीदा और उनको 1000 रुपये नगद भुगतान किया।
- 30 मई 2017 - निजी प्रयोग के लिए निकाले माल 100 रुपये, नगदी 200 रुपये और बैंक से 200 रुपये।

अथवा

नकल बही की पांच विशेषताएं लिखिए ?

प्रश्न क्रमांक 21 - 01 जनवरी 2015 को एक मशीन 19,400 रुपये में खरीदी गई। उसे फेक्टरी तक लाने व लगाने में 600 रुपये व्यय किया गया। इस यन्त्र पर घटती किस्त पद्धति के अनुसार 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से घटौती का आयोजन करने का निश्चय किया गया। प्रथम तीन वर्षों का मशीन खाता बनाइए ?

अथवा

आयोजन एवं संवय में अन्तर लिखिए ?

प्रश्न क्रमांक 22- निम्नलिखित तालपट सही नहीं है। सही तालपट बनाइए -

विवरण	नाम (रकम)	जमा (रकम)
बिके हुए माल की लागत	75,000	-
अन्तिम स्कन्ध	-	20,000
देनदार	-	30,000

लेनदार	—	15,000
यन्त्र	25,000	—
प्रारंभिक स्कन्ध	30,000	—
वेतन तथा किराया	—	10,000
विक्रय	—	1,00,000
पूंजी	45,000	—
कुल	1,75,000	1,75,000

अथवा

अशुद्धियों के संशोधन की विधियां बताइये ?

प्रश्न क्रमांक 23— 31 मार्च 2017 को निम्नांकित से अन्तिम खाते बनाइये —

विवरण	रकम	विवरण	रकम
प्रारंभिक स्कन्ध	4000	लेनदार	2100
कय	56,000	देय विपत्र	2000
आहरण	1000	कमीशन	300
भाड़ा	500	विक्रय	60,000
देनदार	3500	प्राप्त बट्टा	300
रोकड़ शेष	2000	पूंजी	16,500
वेतन	1500		
मजदूरी	600		
प्राप्त विपत्र	1800		
मरम्मत	300		
मशीनरी	10,000		
कुल	81,200		81,200

समायोजन :-

1. अन्तिम स्कन्ध 12,000 रुपये।
2. अदत्त वेतन 300 रुपये।
3. पूर्वदत्त मरम्मत व्यय 100 रुपये।
4. उपार्जित कमीशन 400 रुपये।
5. मशीनरी पर 5 प्रतिशत से हास लगाना है।

अथवा

व्यापार एवं लाभ-हानि खाते में अन्तर लिखिए ?